

## विकलांगता क्या है?

- 5 में से लगभग 1 ऑस्ट्रेलियाई में एक या अधिक विकलांगताएं होती हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कभी आपको और/या परिचित, जिसके साथ आप कार्य करते हैं, प्यार करते हैं उसे विकलांगता हो सकती है और/या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे विकलांगता हो सकती है।
- विकलांगता, दृश्यात्मक या छिपी, स्थायी या अस्थायी हो सकती है और व्यक्ति की क्षमता पर इसका कम या अत्यधिक प्रभाव हो सकता है। 80% से अधिक विकलांगताएं अदृश्य होती हैं। बहुत से लोग स्वयं अपने बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि वे विकलांग हैं; हालांकि शिक्षा या रोजगार में अपना सामर्थ्य दिखाने में सहायता करने के लिए वे पर्याप्त समायोजन के लिए पात्र हो सकते हैं।
- विकलांगता गतिशीलता, सीखने की क्षमता, या आसानी से संचार करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- *विकलांगता भेदभाव अधिनियम (1992)* की परिभाषा व्यापक है और इसमें वे बिंदु शामिल हो सकते हैं जिन पर आपने पहले विचार नहीं किया है, जिसमें शामिल है:
  - व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक कार्यों की पूर्ण या आंशिक क्षति
  - शरीर के किसी अंग की पूर्ण या आंशिक क्षति
  - जीवाणुओं की शरीर में उपस्थिति, जिसके कारण रोग या बीमारी हो सकती है
  - व्यक्ति के शरीर के किसी अंग में खराबी, कुरूपता या विरूपण
  - विकार या खराबी, जिसके कारण व्यक्ति के सीखने की क्षमता उन लोगों से भिन्न होती है जिनमें कोई खराबी या विकार न हो
  - विकार, रोग या बीमारी, जो व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया, वास्तविकता की धारणा, भावनाओं या उसके द्वारा निर्णय लेने को प्रभावित करती है।
- हालांकि कुछ लोगों को बचपन से ही विकलांगता होती है, बहुत से लोग जिन्हें वर्तमान में विकलांगता है वे शायद अपना बहुत सा जीवन इसके बिना गुजार चुके हैं। उदाहरण के लिए वे व्यक्ति जिन्हें कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना या कार दुर्घटना के कारण विकलांगता हुई है, और वे लोग जो बढ़ती हुई आयु के साथ विकलांग होते जाते हैं।

- **विकलांगता भेदभाव अधिनियम (1992)** के तहत जिन स्थितियों को विकलांगता माना जा सकता है उनके उदाहरण में शामिल हैं:
  - **पुरानी बीमारियाँ**  
अस्थमा, मधुमेह, कैंसर, क्रोहन रोग, गठिया
  - **बौद्धिक विकलांग**  
डाउन सिंड्रोम, फ्रेज़ाइल X सिंड्रोम, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम
  - **सीखने में असमर्थता**  
डिस्लेक्सिया, डिसग्राफिया, स्कोटॉपिक संवेदनशीलता
  - **मानसिक बीमारियाँ**  
अवसाद, चिंता विकार, एक प्रकार का पागलपन, द्विध्रुवी विकार
  - **न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ**  
मल्टीपल स्केलेरोसिस, मिर्गी, एस्पर्जर
  - **शारीरिक विकलांगता**  
रीढ़ की हड्डी की चोट, सेरेब्रल पाल्से
  - **संवेदी विकलांगता**  
श्रवण, दृष्टि

## विकलांगता वाले लोग कौन होते हैं?

- विकलांग लोग हमारे समुदाय के प्रत्येक हिस्से का भाग हैं: पुरुष, महिला, और बच्चे; नियोक्ता और कर्मचारी; छात्र और शिक्षक; स्वदेशी और विदेशी; ग्राहक; नागरिक
- एक बात जो विकलांग लोगों को दूसरों से अलग करती है वह है कि वे अपनी विकलांगता के प्रभावों से निकलने में सहायता करने के लिए कुछ प्रकार के अनुकूलन, या फेरबदल के बिना समाज के अन्य लोगों की तरह कुछ कार्यों को करने में अक्षम होते हैं। समान विकलांगता वाले दो व्यक्ति कभी भी अपनी विकलांगता का अनुभव समान प्रकार से नहीं करते हैं।

स्रोत

कार्य पहुँच

[http://jobaccess.gov.au/Coworkers/Working\\_with\\_people\\_with\\_disability/Pages/home.aspx](http://jobaccess.gov.au/Coworkers/Working_with_people_with_disability/Pages/home.aspx)

विकलांगता पर ऑस्ट्रेलियाई नियोक्ता नेटवर्क

[www.employersnetworkondisability.com.au/index.php?option=com\\_content&task=view&id=69&Itemid=16](http://www.employersnetworkondisability.com.au/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=16)

वेस्टर्न सिडनी नेशनल डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर प्रोग्राम द्वारा विकसित किया गया – जुलाई 2012 (संस्करण 2)

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे +61 2 9678 7378 या [ndco@westernsydney.edu.au](mailto:ndco@westernsydney.edu.au) पर संपर्क करें

[www.westernsydney.edu.au/ndco](http://www.westernsydney.edu.au/ndco)